



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

निगमित संप्रेषण एवं निवेशक संबंध
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे-5
टेली : 020-25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तार

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा "हर घर तिरंगा" अभियान मनाते हुए तिरंगे के साथ बाइक रैली का आयोजन

पुणे, 6 अगस्त, 2022: बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पुणे शहर अंचल द्वारा "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मनाते हुए "हर घर तिरंगा" का संदेश देने के लिए तिरंगे के साथ बाइक रैली का आयोजन किया गया। श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 'यशोमंगल', पुणे शहर अंचल कार्यालय, एफ.सी. रोड से बाइक रैली का नेतृत्व किया। इस रैली में बैंक के प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, शिवाजी नगर, शनिवार वाडा और केसरी वाडा सहित पुणे शहर का लगभग 10 कि.मी. का क्षेत्र कवर किया गया। इस बाइक रैली में श्री राजेश सिंह, महाप्रबंधक और अंचल प्रमुख, पुणे शहर अंचल, श्री प्रशांत के. दाश, उप अंचल प्रबंधक, आवास वित्त शाखा, कॉर्पोरेट वित्त शाखा, ओवरसीज़ शाखा, सीपीसी के शाखा प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। श्री अमित श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता अधिकारी, बैंक के सभी महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और अन्य अधिकारी तिरंगे और "हर घर तिरंगा" के नारों के साथ रैली को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने एकत्रित हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत में श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने संबोधन में कहा कि अपने हाथों में तिरंगा लेकर पुणे शहर के नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने के लिए "हर घर तिरंगा" का संदेश देते हुए इस बाइक रैली का आयोजन कर हम बेहद उत्साहित महसूस कर रहे हैं। श्री विजयकुमार ने कहा कि "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाना हमारे लिए गर्व का विषय है क्योंकि बैंक होने के नाते हम राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न अंग हैं। हमारे सम्मानित ग्राहक और हितधारक हम पर बहुत विश्वास करते हैं तथा जागरूकता फैलाना और अपने नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारा कर्तव्य है।

इस रैली के दौरान बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शहर अंचल के स्टाफ सदस्य तिरंगे के साथ ही वित्तीय साक्षरता, डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार मुक्त भारत जैसे संदेशों के साथ जागरूकता फैलाने वाली तख्तियां और स्लोगन लिए हुए थे। रैली के बाद जनसामान्य के बीच बैंकिंग जागरूकता बढ़ाने और हर घर तिरंगा के प्रचार हेतु बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा कलाकारकट्टा, गुड लक चौक, एफ. सी. रोड, पुणे में फ्लैश डांस किया गया।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए अपने अंचल कार्यालयों और शाखाओं के माध्यम से देश भर के सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

निगमित संप्रेषण एवं निवेशक संबंध
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे-5
टेली : 020-25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तार



फोटो : कार्यकारी निदेशक श्री ए बी विजयकुमार झंडा पकड़े हुए। उनके बायें मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री अमित श्रीवास्तव, श्री राजेश सिंह, महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख, पुणे सिटी जोन, श्री अतुल जोशी, महाप्रबंधक संसाधन योजना और विपणन। उनके दाहिनी ओर श्री संजय रुद्र, महाप्रबंधक, आईआरएम, अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ।